



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1938 (श10)

(सं0 पटना 62) पटना, बुधवार, 25 जनवरी 2017

मत्स्य निदेशालय

कार्यालय आदेश
18 जनवरी 2017

सं0 म0/स्था0आ0र0प0(अधी0)-11/2016-52—जिला अनुकम्पा चयन समिति, बाँका की दिनांक 04.02.2016 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक जिला पदाधिकारी, बाँका के ज्ञापांक— 75/स्था0 दिनांक 10.02.2016 द्वारा संसूचित अनुशंसा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-97 दिनांक 26.04.2016 तथा पत्रांक 406 दिनांक 16.11.2016 के आलोक में श्री सुधांशु कुमार, पिता— स्व0 विनय कुमार पासवान, भूतपूर्व मछुआ, जिला मत्स्य कार्यालय, बाँका को विभाग के अधीन वेतन बैंड 5200-20200/ एवं ग्रेड पे 1800 रू0 में रिक्त चतुर्थ वर्ग “कार्यालय परिचारी” के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर परिक्षेत्र, भागलपुर के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्ति कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वहण करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर परिक्षेत्र, भागलपुर तत्काल औपबधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नवनियुक्त कर्मी का वेतन भुगतान इनके शैक्षणिक योग्यता की संपुष्टि सम्बन्धित संस्थान से कराने के पश्चात् ही उनके पदस्थापन स्थल से किया जाएगा।
8. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता चतुर्थ वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।
9. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
(ह०)—अस्पष्ट,
निदेशक मत्स्य।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 62-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>